



प्रेसनोट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

थाना फतेहाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान असलाह मय कारतूस सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी/लूट, डकैती, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अवैध शराब तस्करी आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतेहाबाद को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 18.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ग्राम पारौली सिकरवार के पास पहुँची तो गाँव से पहले रास्ते में एक व्यक्ति आता दिखा जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम को शक होने पर उक्त व्यक्ति दिनांक 18.07.2021 समय 19.17 बजे ग्राम पारौली सिकरवार के रास्ते में को घेर-घोट कर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया।

➤ **पूछताछ का विवरण:-**

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 01. शिलेन्द्र उर्फ शिलू पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम पारौली सिकरवार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज देशी बन्दूक, 12 बोर तथा दाहिनी फैंट से एक तमंचा, 315 बोर व बायीं जेब से 03 जिन्दा कारतूस, 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस, 315 बोर बरामद हुये। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 268/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01. शिलेन्द्र उर्फ शिलू पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम पारौली सिकरवार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

➤ **बरामदगी का विवरण:-**

01. एक नाजायज देशी बन्दूक, 12 बोर।
02. एक तमंचा, 315 बोर।
03. 03 जिन्दा कारतूस, 12 बोर।
04. 02 जिन्दा कारतूस, 315 बोर।

➤ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।
02. उ0नि0 दीपक चौहान थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।
03. का0 ललित कुमार, का0 श्रीचंद, का0 दीपक कुमार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।



AGRA POLICE



Date 19-07-2021

मीडिया सेल जनपद आगरा



<https://www.facebook.com/pro.c.agra/>



<https://www.youtube.com/channel/UCVEYOlSdTGvATI8PmYQW0Q/>